

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा छात्राओं के लिए क्षमता संवर्द्धन एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित

यूजीसी-एचआरडीसी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने संयुक्त रूप से आज विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए एक ऑनलाइन क्षमता संवर्द्धन एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (पीडीपी) का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने मुख्य अतिथि के रूप में किया।

कुलपति ने अपने उद्घाटन भाषण की शुरुआत जामिया के साथ सहयोग करने और महिला छात्राओं को सशक्त करने का पाठ्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए एनसीडब्ल्यू को धन्यवाद देकर की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम उन छात्राओं को तैयार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा जो अपने पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती हैं।

प्रो. अनीसुर रहमान, निदेशक, एचआरडीसी, जामिया ने मुख्य अतिथि प्रो. एजाज़ मसीह, डीन, शिक्षा संकाय, जेएमआई, तीन विषय विशेषज्ञों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम की संक्षिप्त पाठ्यक्रम संरचना पर प्रकाश डाला।

प्रो. मसीह ने अपनी अध्यक्षता में टिप्पणी करते हुए विश्वविद्यालय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रो. नजमा अख्तर द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम के महत्व को भी रेखांकित किया।

कार्यक्रम के दौरान; विषय विशेषज्ञ प्रो. अर्चना दस्सी, अध्यक्ष, समाज कार्य विभाग, जामिया; प्रो. रहेला फारूकी, प्रबंधन अध्ययन केंद्र, जामिया; प्रो. शाने काज़िम नकवी, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी (सीआईटी) और विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के संकाय सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुआ।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया